



THEATRE CLUB G.C. SANJAULI



Report on Solo Theatre Performance: "Maa Mujhe Tagore Bana De"

Event: Solo theatre performance

Date: July 25, 2025

Venue: Government College Sanjauli

On **July 25, 2025**, Government College Sanjauli's Theatre Club and English Department proudly hosted "**Maa Mujhe Tagore Bana De**," a powerful solo theatre performance. Renowned artist **Mr. Luckyjee Gupta**, who has performed this play over **1650 times** to more than **5 million students** across India, delivered an unforgettable experience in the College Auditorium.



शिमला भास्कर 26-07-2025

सिटी एंकर नाटक में शिक्षा का नया दृष्टिकोण, सोच से निकलता है बदलाव का सूरज
मां मुझे टैगोर बना दे: गरीबी से जूझते बालक का बड़ा सपना
संघर्ष, सपने और मां की ममता की रंगमंचीय गाथा का मंचन



एक्जेशन रिपोर्ट | शिमला

सेक्टर ऑफ एग्जिलेंस संजौली कॉलेज के इंग्लिश विभाग व थिएटर क्लब द्वारा शुक्रवार को एकल नाटक "मां मुझे टैगोर बना दे" का मंचन किया गया। नाटक के जेरीय छात्रों को बताया गया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सोच है जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। नाटक एक ऐसे बालक की कहानी है, जो रबींद्रनाथ टैगोर जैसा लेखक, कवि और विचारक बनना चाहता है। उसके भीतर रचनात्मकता

की चिंगनी है, लेकिन गरीबी, सामाजिक ताने-बाने और परिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उसके सपनों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। नाटक में उसकी मां एक केंद्रीय चरित्र है, जो खुद अतिथित होते हुए भी अपने बेटे की प्रतिभा को पहचानती है। वह उसे प्रेरित करती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है और तमाम संघर्षों के बीच उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। बेटे के हर संघर्ष, अस्वीकृति और विफलता के क्षण में मां का सया उसे टूटने नहीं देता। नाटक का शीर्षक "मां मुझे टैगोर बना दे" एक प्रतीक है उस प्रार्थना का,

जो हर उस बच्चे की है जो सपनों को साकार करना चाहता है लेकिन सामाजिक और आर्थिक सीमाओं में जकड़ा हुआ है। अंत में, बेटा टैगोर जैसा बड़ा नाम तो नहीं पाता, लेकिन समाज को दिशा देने वाला एक बड़ा विचारक और संवेदनशील लेखक जरूर बनता है। इस नाटक को देखने के लिए कॉलेज का ऑडिटोरियम छात्रों से भरा रहा। कॉलेज प्रिंसिपल प्रो. भारती भग्रा ने नाटक की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामच न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा और जागरूकता का भी सरावत माध्यम है।

The event was graced by **Dr. Bharti Bhagra**, Principal of the college, as the Chief Guest, alongside enthusiastic staff, faculty, and a packed audience of students and visitors.

The Play: Resilience, Education, and Giving Back

Mr. Gupta's performance told the true story of a

village boy from poverty, whose brilliance in poetry and studies led him to consistently top his class. Despite tragedy—losing his father and his mother falling ill, forcing him to drop out—he persevered, working by day and studying by night to ultimately top the state merit list.



THEATRE CLUB G.C. SANJAULI



The play's profound message emerged as the boy realized that becoming 'Tagore' wasn't about fame, but about **inspiring others**. He chose to become a **teacher in his village**, dedicating his life to uplifting underprivileged children, just as he was once supported. Mr. Gupta's **raw, emotional, and engaging** portrayal deeply moved the audience, with many praising the play's powerful message and social relevance.

A **donation drive** during the event saw generous contributions, with funds allocated to support similar educational and cultural theatre initiatives.



Conclusion: A Profound Success Dr. Bharti Bhagra commended Mr. Gupta's brilliant performance and the initiative by the Theatre Club and English Department. Mr. Gupta also engaged with Theatre students, sharing his journey and encouraging them to pursue their dreams.

The event was a profound success, brilliantly blending art, social consciousness, and education. It left the audience with a lasting message on perseverance, the power of education, and the responsibility to give back to society.

Reported by: Harsh